

1.	Earth provides enough to satisfy every man's needs	पृथ्वी प्रत्येक मनुष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त देती है।
2.	Renewable Energy will become progressively more important as time goes on.	समय बीतने के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा का महत्व बढ़ता जाएगा।
3.	There is no energy crisis, only crisis of ignorance.	विद्युत की कमी नहीं, बल्कि अनदेखी की कमी है।
4.	The cost of energy will come down when we make the transition to renewable energy.	अक्षय ऊर्जा की ओर रुख करेंगे तो बिजली की दरों में कमी आएगी।
5.	India has started the world's largest renewable energy programme.	भारत ने विश्व के सबसे बड़े अक्षय ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत की है।
6.	Target to produce 175 Gigawatt energy by renewable resources	अक्षय ऊर्जा संसाधनों से वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट बिजली पैदा करने का लक्ष्य
7.	An increase of 370% Solar Energy Capacity during the last 3 years	विगत 3 वर्षों में सौर ऊर्जा क्षमता में 370% से भी अधिक की बढ़ोत्तरी
8.	Highest increase of 5.5 Gigawatt during 2016-17 in Wind Energy Capacity	पवन ऊर्जा क्षमता में 2016-17 में 5.5 गीगावाट की सर्वाधिक वृद्धि
9.	Lowered Solar tariff rates upto 75% due to Plug and Play Model	लगाओ और चलाओ मॉडल से सौर विद्युत दरों में 75% से अधिक की कमी
10.	Production of Solar energy at cheaper rates is becoming possible.	सस्ती दरों पर सौर ऊर्जा का उत्पादन संभव हो रहा है।
11.	Production of Wind energy at cheaper rates is becoming possible.	सस्ती दरों पर पवन ऊर्जा का उत्पादन संभव हो रहा है।
12.	The future is green and renewable energy	आने वाला समय हरित और अक्षय ऊर्जा का है।
13.	The nation that leads in renewable energy will be the nation that leads the world 10 to 20 years from now.	जो राष्ट्र अक्षय ऊर्जा में आगे है, वह आज से 10 से 20 वर्षों बाद दुनिया का नेतृत्व करेगा।

14.	Renewable energy has immense potential.	अक्षय ऊर्जा में अपार क्षमता है।
15.	Renewable energy includes solar, wind etc.	अक्षय ऊर्जा में सौर, पवन आदि शामिल हैं।
16.	Energy saving is self-sustenance	बिजली की बचत ही आत्मनिर्भरता है।
17.	The Ministry is implementing a programme on power production by urban, industrial and agri waste/residues.	मंत्रालय द्वारा शहरी, औद्योगिक एवं कृषि कचरे/अवशेषों से विद्युत का उत्पादन करने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
18.	Due attention is being paid on R&D in Renewable Energy Sector.	अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है।
19.	Moving towards renewable energy will reduce its tariffs.	अक्षय ऊर्जा का रुख करने से विद्युत दरों में कमी आएगी।
20.	India is world's fourth largest Wind energy producer after China, America and Germany.	चीन, अमेरिका और जर्मनी के बाद भारत विश्व में चौथा सबसे बड़ा पवन विद्युत उत्पादक देश है।
21.	There are five institutions to assist the Ministry.	मंत्रालय को सहयोग देने के लिए पाँच संस्थान हैं।
22.	A time-limit of 60 days has been fixed.	60 दिनों की समय-सीमा रखी गई है।
23.	Complaints are speedily redressed.	शिकायतों का त्वरित निपटान किया जाता है।
24.	Under National Solar Energy Mission 30% capital subsidy is being provided.	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत 30% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जा रही है।
25.	Renewable energy is generated from natural energy sources such as Sun, Wind, Water, Earth, Plants etc.	सूरज, पवन, जल, पृथ्वी, वनस्पति आदि प्राकृतिक ऊर्जा स्रोतों से अक्षय ऊर्जा पैदा होती है।
26.	Renewable energy is being used as the best option for conventional energy.	अक्षय ऊर्जा का उपयोग पारंपरिक ऊर्जा के सर्वश्रेष्ठ विकल्प के रूप में किया जा रहा है।
27.	Renewable energy is a stable solution to our energy requirements.	अक्षय ऊर्जा हमारी ऊर्जा जरूरतों के लिए एक स्थायी समाधान है।

28.	Renewable energy is a pollution-free energy resource.	अक्षय ऊर्जा प्रदूषण मुक्त ऊर्जा का संसाधन है।
29.	India's renewable energy sector is the second most attractive renewable energy market in the world.	भारतीय अक्षय ऊर्जा क्षेत्र विश्व का दूसरा सबसे आकर्षक अक्षय ऊर्जा बाजार है।
30.	India ranks fourth in the world in terms of total installed wind power capacity.	कुल संस्थापित पवन विद्युत क्षमता में भारत का चौथा स्थान है।
31.	India's total power generation capacity is expected to be 8% of global Solar capacity by 2035.	ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2035 तक भारत की कुल सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता वैश्विक सौर क्षमता का 8% होगी।
32.	Energy has become an inseparable part of modern lifestyle.	ऊर्जा आधुनिक जीवनशैली का एक अविभाज्य हिस्सा बन चुकी है।
33.	Energy is directly related to environment	ऊर्जा का पर्यावरण से सीधा संबंध है।
34.	The Ministry of New and Renewable Energy prepares upto 25MW capacity of small hydro power projects.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 25 मेगावाट क्षमता तक की लघु पन बिजली परियोजनाएं तैयार करता है।
35.	Hon'ble Prime Minister had announced a package for electrification of bordering villages of Arunachal Pradesh.	माननीय प्रधानमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित गावों में बिजली पहुंचाने के लिए पैकेज की घोषणा की थी।
36.	A scheme to electrify all bordering villages of Arunachal Pradesh was prepared.	अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित सभी गावों में बिजली पहुंचाने की योजना तैयार की गई।
37.	This Ministry is implementing a project named 'Ladakh Akshay Urja Pahel' in order to reduce Ladakh's dependence on diesel/kerosene oil.	यह मंत्रालय लद्दाख की डीजल/मिट्टी के तेल पर निर्भरता को कम करने के लिए 'लद्दाख अक्षय ऊर्जा पहल' नामक परियोजना चला रहा है।

38.	As an initiative under Prime Minister's Ladakh Akshay Urja Pahel Pariyojana, J&K's Drass city in Kargil is being supplied 24 hours of electricity.	प्रधान मंत्री की लद्दाख अक्षय ऊर्जा पहल परियोजना के तहत पहल के रूप में जम्मू और कश्मीर के कारगिल में द्रास शहर को 24 घंटे बिजली दी जा रही है।
39.	National Solar Mission was started on 11 January, 2010.	राष्ट्रीय सौर मिशन, 11 जनवरी, 2010 को शुरू किया गया था।
40.	This Ministry provides assistance to States for setting up Solar Parks.	यह मंत्रालय राज्यों को सौर पार्कों की स्थापना करने में सहायता प्रदान करता है।
41.	Renewable energy will also be a boon for our future generations.	अक्षय ऊर्जा हमारी भावी पीढ़ियों के लिए भी वरदान साबित होगी।
42.	India has a vast potential for renewable energy.	भारत में अक्षय ऊर्जा के लिए अपार क्षमता है।
43.	Grid Connected Solar Rooftop Programme promotes installation of Solar Panels across the country.	ग्रिड सम्बद्ध सौर रूफटॉप कार्यक्रम के अंतर्गत देशभर में सौर पैनल लगाने को बढ़ावा दिया जाता है।
44.	National Solar Mission is a part of the National Action Plan on Climate Change.	राष्ट्रीय सौर मिशन जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना का एक हिस्सा है।
45.	It is an initiative to promote Solar Power in India.	यह भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की एक पहल है।
46.	India has much renewable energy potential such as wind, solar, biomass, small hydro etc.	भारत में पवन, सौर, बायोमास, लघु पन बिजली आदि जैसी अक्षय ऊर्जा की काफी संभावना है।
47.	Currently there are 19 ongoing R&D projects in wind energy area.	वर्तमान में पवन ऊर्जा के क्षेत्र में 19 अनुसंधान और विकास परियोजनाएं चल रही हैं।
48.	Ministry issued draft Wind-Solar Hybrid Policy.	मंत्रालय ने पवन-सौर हाइब्रिड नीति का मसौदा जारी किया।

49.	Ministry has been promoting "Biomass Power and Bagasse Co-generation Programme".	मंत्रालय द्वारा "बायोमास विद्युत और खोई सह-उत्पादन कार्यक्रम" को बढ़ावा दिया जा रहा है।
50.	MNRE is developing Small Hydro Power (SHP) projects upto 25 MW station capacity.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 25 मेगावाट स्टेशन क्षमता तक की लघु पन विद्युत (एसएचपी) परियोजनाएं तैयार कर रहा है।
51.	The Ministry is implementing a project titled 'Ladakh Renewable Energy Initiative'.	मंत्रालय 'लद्दाख अक्षय ऊर्जा पहल' नामक परियोजना चला रहा है।
52.	Ministry has sanctioned funds for setting up of 300 water mills.	मंत्रालय ने 300 पनचक्कियों के निर्माण के लिए धनराशि की मंजूरी दी है।
53.	Ministry is promoting biogas power for decentralized power generation applications.	मंत्रालय विकेंद्रित विद्युत उत्पादन के प्रयोग के लिए बायोगैस विद्युत को बढ़ावा दे रहा है।
54.	The scheme for development of solar parks and ultra mega solar power projects was rolled out by MNRE in December 2014.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए दिसम्बर, 2014 में योजना शुरू की थी।
55.	Potential of solar energy in Cantonment and Military stations is approximately 5000 MW and in Ordnance Factory Boards (OFB) is 950 MW.	छावनी और सैनिक स्टेशनों में सौर ऊर्जा की संभाव्यता लगभग 5000 मेगावाट और आयुध निर्माणी बोर्डों (ओएफडी) में लगभग 950 मेगावाट है।
56.	The Ministry is implementing "Grid Connected Rooftop and Small Solar Power Plants Programme" in Country.	मंत्रालय देश में ग्रिड संबद्ध रूफटॉप और लघु सौर विद्युत संयंत्र कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है।
57.	Under the Atal Jyoti Yojna (AJAY) programme solar street lights are to be installed in rural, semi-urban and urban areas.	अटल ज्योति योजना (अजय) के तहत ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में सौर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही हैं।

58.	The creation of the Intra-State Transmission System will facilitate the evacuation of renewable power from generation stations to load centers.	इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन प्रणाली तैयार होने से उत्पादन केन्द्रों से लोड केन्द्रों तक अक्षय ऊर्जा ले जाने के लिए निकासी की सुविधा होगी।
59.	India has offered to meet ISA secretariat expenses for initial five years.	भारत ने आईएसए के सचिवालय का शुरुआती 5 वर्षों तक खर्च उठाने का प्रस्ताव रखा है।
60.	Biogas plants are potential source of helping farmers in adopting organic farming.	बायोगैस संयंत्र जैविक खेती को अपनाने में किसानों की सहायता के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
61.	A biogas plant is a small farm infrastructure asset for farmers and their families.	बायोगैस संयंत्र किसानों और उनके परिवारों के लिए एक छोटे फार्म की बुनियादी पूंजी है।
62.	The Ministry is implementing programme on improved Biomass Cookstoves known as Unnat Chulha Abhiyan programme.	मंत्रालय उन्नत चूल्हा अभियान कार्यक्रम नामक उन्नत बायोमास कुक स्टोव कार्यक्रम चला रहा है।
63.	The Ministry has been implementing a scheme on "Energy Efficient Solar/Green Buildings".	मंत्रालय "ऊर्जा दक्ष सौर/हरित भवन" संबंधी योजना कार्यान्वित कर रहा है।
64.	The Ministry has target to support 60 cities/towns for development as "Solar/Green Cities".	मंत्रालय का लक्ष्य 60 नगरों/शहरों को "सौर/हरित शहरों" के रूप में विकसित करने हेतु सहायता प्रदान करना है।
65.	Technology Development, validation and standardization are the care requirements for the growth of New and Renewable Energy.	प्रौद्योगिकी विकास, मान्यकरण और मानकीकरण अक्षय ऊर्जा विकास के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं।
66.	Ministry has sponsored research in the area of growth of silicon material in the country.	मंत्रालय ने देश में सिलिकॉन सामग्री के विकास के क्षेत्र में अनुसंधान को प्रायोजित किया है।

67.	Innovative project “Experimental Grid Tied Solar PV Power Generation on a Water Body” sanctioned to IGNOU community college.	इयू कम्प्यूनिटी कॉलेज के लिए एक प्रयोग के तौर पर जलाशय पर ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी विद्युत उत्पादन की अभिनव परियोजना स्वीकृत की गई।
68.	National Institute of Solar Energy, an autonomous institution of Ministry of New & Renewable Energy is the apex National R & D institution in the field of solar energy.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का एक स्वायत्त संस्थान राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष राष्ट्रीय अनुसंधान और विकास संस्थान है।
69.	A new building named “Surya Bhavan” and 300 room International Guest House with solar passive concept is fully functional.	सौर उपयोग की संकल्पना से बना “सूर्य भवन” नामक एक नया भवन और 300 कमरों का अंतर्राष्ट्रीय अतिथि गृह पूरी तरह से कार्य कर रहा है।
70.	Mobile test facility has also been procured for testing/evaluation of performance of different thermal technologies in actual working/field conditions.	वास्तविक कार्य/क्षेत्र की स्थितियों में विभिन्न तापीय प्रौद्योगिकियों के कार्य निष्पादन के परीक्षण/मूल्यांकन के लिए मोबाइल परीक्षण सुविधा भी प्राप्त की गई है।
71.	A solar hydrogen production cum dispensing facility was provided in the campus of the National Institute of Solar Energy.	राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के परिसर में सौर हाइड्रोजन उत्पादन एवं वितरण की सुविधा प्रदान की गई।
72.	The objective of the Nation-wide Wind Resource Assessment program is to quantify the wind resource availability in the country with a view to generate power from wind.	राष्ट्रव्यापी पवन संसाधन आकलन कार्यक्रम का उद्देश्य पवन से विद्युत का उत्पादन करने के उद्देश्य से देश में पवन संसाधन की उपलब्धता का आकलन करना है।
73.	Renewable Energy is a sustainable source that is not harmful to both the environment and human health.	अक्षय ऊर्जा एक ऐसा स्थायी स्रोत है जो पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य दोनों के लिए हानिकारक नहीं है।

74.	The wind solar hybrid is new dimension in optimising the available infrastructure and also to reduce the intermittency of these generation.	पवन सौर हाइब्रिड प्रणाली उपलब्ध अवसंरचना का अधिकतम उपयोग करने और इन स्रोतों से उत्पादन की अनिश्चिन्ता को कम करने की दृष्टि से भी एक नया आयाम है।
75.	Global wind day is a world wide event that is celebrated annually on 15 June.	विश्व पवन दिवस एक विश्वस्तरीय कार्यक्रम है जिसका आयोजन प्रत्येक वर्ष 15 जून को किया जाता है।
76.	SECI has been designated as the implementing agency by MNRE for implementation of the scheme for procurement of wind power on a pan India basis.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सेकी को समूचे भारत में पवन विद्युत खरीद की योजना कार्यान्वित करने के लिए कार्यान्वयन एजेंसी नामित किया है।
77.	SECI has been successfully implementing MNRE's Solar Rooftop Schemes across the country.	सेकी देश भर में एमएनआरई की सौर रूफटॉप योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित कर रहा है।
78.	As a part of government initiatives, MNRE targeted CPSUs to motivate them to set up solar power projects.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सरकार की पहल के रूप में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सौर विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य रखा।
79.	'Bio-energy Alliance' constituted at Sardar Swaran Singh National Institute of Bio-energy, Kapurthala.	सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय बायो ऊर्जा संस्थान, कपूरथला में "बायो ऊर्जा गठबंधन (एलायंस)" किया गया है।
80.	Indian Renewable Energy Development Agency Ltd. (IREDA) is a mini ratna (Category-I) under the administrative control of MNRE.	भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लि. (इरेडा) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक मिनी रत्न (श्रेणी-I) उद्यम है।
81.	The role of renewable energy has been assuming increasing significance in recent times.	वर्तमान में अक्षय ऊर्जा की भूमिका बढ़ती जा रही है।

82.	The Ministry continues to support five institutes for conducting short term training programmes.	मंत्रालय अल्पावधिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन के लिए पांच संस्थानों को सहायता प्रदान कर रहा है।
83.	Surya Mitra training is being organized through 177 training centres/organisations in different states across the country.	देशभर में विभिन्न राज्यों में 177 प्रशिक्षण केन्द्रों/संगठनों के माध्यम से सूर्यमित्र प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है।
84.	National Informatics Centre has developed a mobile application namely ARUN, "ARUN – Atal Rooftop Solar User Navigator" for promoting Solar Rooftop installations among the general public.	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने आम जन के बीच सौर रूफटॉप संस्थापनाओं को बढ़ावा देने के लिए "अरुण-अटल रूफटॉप सौर यूजर नेविगेटर" नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया है।
85.	IOS version of ARUN has been launched.	अरुण का आईओएस संस्करण शुरू किया जा चुका है।
86.	An online application for monitoring small hydro projects is under implementation.	लघु पन बिजली परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा शुरू है।
87.	Ministry of New & Renewable Energy website was designed in-house using latest ICT tools.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की वेबसाइट नवीनतम आईसीटी टूल का उपयोग कर डिजाइन की गई थी।
88.	A studio based video conferencing (vc) system has been implemented in the MNRE.	एमएनआरई में एक स्टूडियो आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) प्रणाली कार्यान्वित की गई है।
89.	The Ministry of New & Renewable Energy has been interacting with both developed and developing countries for co-operation in the field of renewable energy.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए विकसित और विकासशील देशों के साथ विचार विमर्श करता रहा है।

90.	The Ministry provides support for specialized training programmes in African and other developing countries involving National Institute of Solar Energy.	मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान को शामिल कर अफ्रीकी और अन्य विकासशील देशों में विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
91.	India is one of the founder members of the International Renewable Energy Agency (IRENA).	भारत अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (इरेना) के संस्थापक सदस्यों में से है।
92.	IRENA is actively associated with MNRE and provides policy suggestions for scaling up of Renewable Energy target of 175 GW set by India.	इरेना, एमएनआरई के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है और भारत द्वारा निर्धारित 175 गीगावाट के अक्षय ऊर्जा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतिगत सुझाव उपलब्ध कराता है।
93.	Special attention is being paid to development of eight states in the North-east region of the country through a separate budget allocation under various renewable energy programmes.	विभिन्न अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों के अंतर्गत एक अलग बजट आवंटन के माध्यम से देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 राज्यों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
94.	'National Solar Mission' aims for achieving significantly higher scales of targets of 100 GW.	राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य 100 गीगावाट के उच्चतर स्तर के लक्ष्यों को प्राप्त करना है।
95.	North Eastern States have a fairly good potential to develop small hydro power projects.	पूर्वोत्तर राज्यों में लघु पन बिजली परियोजनाएं विकसित करने की पर्याप्त संभाव्यता है।
96.	The National Biogas & Manure Management Programme is being implemented in the North Eastern Region States.	राष्ट्रीय बायोगैस और खाद प्रबंधन कार्यक्रम का पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों में राज्य सरकार के नोडल विभागों/राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वयन किया जा रहा है।

97.	Eight cities are being developed as Solar Cities from North Eastern States.	पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों से 8 शहरों को सौर शहरों के रूप में विकसित किया जा रहा है।
98.	The broad aim of MNRE is to develop and deploy new and renewable energy for supplementing the energy requirements of India.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का व्यापक उद्देश्य भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अक्षय ऊर्जा का विकास और संस्थापना करना है।
99.	MNRE's vision is to make India's economic development energy efficient.	नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का लक्ष्य भारत के आर्थिक विकास को ऊर्जाक्षम बनाना है।
100.	Solar energy is derived from the Sun's radiation.	सौर ऊर्जा सौर विकिरण से उत्पन्न होती है।
